

# Tijaria Polypipes Limited



Date: 30<sup>th</sup> June, 2021

To,  
The Manager,  
Department of Corporate Services  
BSE Limited  
Phiroze Jeejeebhoy Towers,  
Dalal Street, Mumbai- 400001  
Scrip Code: 533629

To,  
Listing Compliances,  
National Stock Exchange of India Limited,  
Exchange Plaza,  
Bandra Kurla Complex,  
Mumbai-400051  
Company Symbol: TIJARIA

Dear Sir,

**Sub: Submission of copies of Newspaper Advertisement in respect to publication of Financial Results for the quarter and Year ended March 31, 2021**

Please find enclosed herewith the copies of Newspaper Advertisement published in Business Remedies (Jaipur Edition-Hindi) and in Hindustan Mint (New Delhi Edition-English) with regard to Audited Financial Results for the quarter and year ended March 31, 2021.

Kindly take the same on your record.

Thanking you,

Yours Truly,

For Tijaria Polypipes Limited



Ankita Khandelwal  
Company Secretary & Compliance Officer  
M.No. A50855

Enclosed:

1. Copy of Hindi Advertisement
2. Copy of English Advertisement

## PIPING SOLUTIONS

Correspondence Office:  
A-130 (H), Road No. 9-D, Vishwakarma Industrial Area  
Jaipur-302013 (Raj.) India  
Tel : 0141-2333722  
E-mail: info@tijaria-pipes.com

Regd. Office / Works:  
SP-1-2316, RIICO Industrial Area  
Ramchandrapura, Sitapura Extn.  
Jaipur-302022 ( Raj.) India.  
CIN - L25209RJ2006PLC022828

# Broadcasters take on pirates in bid to stem revenue losses

The loss of revenue to Indian firms on account of piracy is expected to hit \$3.08 bn by 2022

Lata Jha  
lataj@liveint.com  
NEW DELHI

Indian broadcasters are chasing pirates as illegal streaming devices and signal theft eat into revenues, especially of big-hit shows such as live sports.

Star India recently filed a case against Android software aggregator Thop TV right before ICC World Test Championship Final. It said Thop TV is a rogue app providing illegal access to films, shows and live sports on TV, as well as video-on-demand content, without authorization from the original owner.

Sony Pictures Networks too has secured a Dynamic John Doe injunction order from the Delhi High Court to prevent infringement of copyrights for two upcoming international cricketing series: India-Sri Lanka men's international series in July and the India-England men's international series in August and September.

A John Doe order is a pre-infringement injunction remedy provided to protect the intellectual property rights of the creator of artistic works. Apart from torrent websites and local cable operators that may be showing and charging for channels illegally, broadcasters now have to deal with so-called Kodi boxes, a term for illicit WiFi streaming devices costing ₹850-1,500, which capture and stream unauthorized TV content.

Reasons for piracy include non-secure encryption technology used for television signals that make them easy to hack and the long-standing consumer habit of wanting content for free. According to two media experts who did not wish to be named, firms could be losing 10-25% of their annual revenues to piracy.

Kodi boxes, often made in China and Ukraine, offers content of all major



More than 400 Indian channels are streamed illegally globally without paying any fees to Indian broadcasters.

Indian broadcasters, including Star, Zee, Viacom18, Sony Pictures, ETV and Sun TV besides free channels, and can be found on various e-commerce sites and wholesale or retail stores in states such as Gujarat, Delhi, Uttar Pradesh and West Bengal.

STAR filed a case against Thop TV, alleging it was a rogue app providing illegal access

A broadcast network executive who did not wish to be named said that existing laws on broadcasting and distribution of satellite television channels do not contain any provision which prohibits the sale and use of such boxes, and their manufacturers or sell-

ers are not required to obtain any licence or certificate from the ministry of information and broadcasting.

Plus, makers of these boxes are located in non-compliant jurisdictions, the person said.

According to a report by Digital TV, "The covid-19 pandemic has seen a sharp rise in the consumer base for this illegal content, due to the fact that viewers are now more comfortable consuming content over the Internet," said Namita Viswanath, partner at Indus Law, adding that in India, companies such as Rhythey Pvt Ltd, Boss IPTV, Tashan IPTV, Vois IPTV, Punjabi IPTV, Indian IPTV, Brampton IPTV and Boss Entertainment have been identified as major operators in the TV piracy market.

Star, Sony, Zee and Viacom18 did not respond to Mint's queries on piracy and losses. Chandrasekhar Mantha, partner at Deloitte said such piracy could happen for any TV provider, given that viewers may seek programmes at optimal cost, but the demand could be higher mar-

que events.

"We saw an army of citizens, young, old, men, and women, all coming together to support each other. Through this campaign, we aim to recognize these covid heroes and, in our own way, salute their indomitable spirit by putting up some of their stories in place of the brand logo across platforms, thereby reflecting their moments of courage and selflessness," said Anuj Goyal, associate director, Tropicana and Slice, PepsiCo India.

Recently, germ protection brand Dettol also replaced its iconic logo with stories and images of "covid protectors" who stepped up to help during India's severe covid-19 wave. Dettol has curated 100 such

# Brands change logos to salute covid warriors, promote safety

Saumya Tewari  
saumya.t@liveint.com  
NEW DELHI

Brands are finding ways to motivate consumers by celebrating the Good Samaritans who extended help for oxygen supply, hospital beds, food supply and medicines. Slice, the mango drink owned by PepsiCo India, for instance, has launched an Instagram augmented reality (AR) filter that changes its logo, albeit only digitally, to reveal an inspiring story of a covid warrior.

Users can log into their Instagram account, using this filter, can scan any Slice logo present either on a product (the Slice bottle), billboard or brand's official social media handles. The logo will instantly transform into a small blurb of text with the name of a covid hero and their noble deed.

This initiative is a part of the brand's 'Aam Nahi Khaas Ho Tum' campaign that celebrates ordinary citizens who have helped others by providing free meals, free rides to hospitals, or helped procure beds, medicines, or oxygen.

"We saw an army of citizens, young, old, men, and women, all coming together to support each other. Through this campaign, we aim to recognize these covid heroes and, in our own way, salute their indomitable spirit by putting up some of their stories in place of the brand logo across platforms, thereby reflecting their moments of courage and selflessness," said Anuj Goyal, associate director, Tropicana and Slice, PepsiCo India.

Recently, germ protection brand Dettol also replaced its iconic logo with stories and images of "covid protectors" who stepped up to help during India's severe covid-19 wave. Dettol has curated 100 such



Slice, the mango drink owned by PepsiCo India, has launched an Instagram augmented reality filter that changes its logo, albeit only digitally, to reveal an inspiring story of a covid warrior.

stories of frontline workers and other citizens who helped meet demand for medical oxygen and provide ration kits and medicines to those in need. The logo will instantly transform into a small blurb of text with the name of a covid hero and their noble deed.

This initiative is a part of the brand's 'Aam Nahi Khaas Ho Tum' campaign that celebrates ordinary citizens who have helped others by providing free meals, free rides to hospitals, or helped procure beds, medicines, or oxygen.

"We saw an army of citizens, young, old, men, and women, all coming together to support each other. Through this campaign, we aim to recognize these covid heroes and, in our own way, salute their indomitable spirit by putting up some of their stories in place of the brand logo across platforms, thereby reflecting their moments of courage and selflessness," said Anuj Goyal, associate director, Tropicana and Slice, PepsiCo India.

Recently, germ protection brand Dettol also replaced its iconic logo with stories and images of "covid protectors" who stepped up to help during India's severe covid-19 wave. Dettol has curated 100 such

using our pack and then extending the campaign to other mediums seemed the best way to bring about a change in behaviour and build upon our connect with our massive consumer base," said Rahul Gyanchandani, joint managing director, RSPL.

In a pre-covid world, brands did experiment with logos and product packaging. Coca-Cola, for instance, replaced the brand name on one side of its bottle labels with words like 'Bhai', 'Didi', and 'Papa' as part of its global campaign 'Share a Coke', to establish a personal connect with the consumers.

In 2009, Nestle launched a campaign titled 'Me and Meri Maggi Stories' to commemorate the completion of the brand's 25 years in India by putting the photos of consumers on product packs. Traditionally, brand assets such as logos, mascots, and labels have been sacrosanct, experts said. However, in unprecedented times such as these the messaging assumes greater importance for a brand to stay connected with consumers.

"In these troubled times, consumers are looking for brands that are socially responsible and have a strong track record of supporting the community during difficult times. Brands that have a history of being socially responsible and have a strong track record of supporting the community during difficult times are more likely to be successful in the long run."

## PIRATE'S DEN

STAR filed a case against Thop TV, alleging it was a rogue app providing illegal access

A broadcast network executive who did not wish to be named said that existing laws on broadcasting and distribution of satellite television channels do not contain any provision which prohibits the sale and use of such boxes, and their manufacturers or sell-

ers are not required to obtain any licence or certificate from the ministry of information and broadcasting.

Plus, makers of these boxes are located in non-compliant jurisdictions, the person said.

"The covid-19 pandemic has seen a sharp rise in the consumer base for this illegal content, due to the fact that viewers are now more comfortable consuming content over the Internet," said Namita Viswanath, partner at Indus Law, adding that in India, companies such as Rhythey Pvt Ltd, Boss IPTV, Tashan IPTV, Vois IPTV, Punjabi IPTV, Indian IPTV, Brampton IPTV and Boss Entertainment have been identified as major operators in the TV piracy market.

Star, Sony, Zee and Viacom18 did not respond to Mint's queries on piracy and losses. Chandrasekhar Mantha, partner at Deloitte said such piracy could happen for any TV provider, given that viewers may seek programmes at optimal cost, but the demand could be higher mar-

TIJARIA POLYPIPS LIMITED		REGD. OFF: SP-42/36, PDCO INDUSTRIAL AREA, SAMACHINDRAPUR, BHOPAL-462018, M.P. (INDIA); TEL: 075-4902458	
EXTRACT OF STATEMENT OF AUDITED STAND ALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31st MARCH, 2021		(Rs. In Lakhs except EPS)	
S. No.	Particulars	3 Months Ended 31/03/2021 (Audited)	Year Ended 31/03/2021 (Audited)
1	Total Income from operations and others	2483.38	6336.60
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Exceptional and Extraordinary Items and tax)	(659.43)	(1400.87)
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and Extraordinary Items)	(659.74)	(1401.29)
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and Extraordinary Items)	(659.74)	(1401.29)
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	(651.42)	(1392.97)
6	Paid-up equity share capital (face value of Rs. 10/- each)	2862.26	2862.26
	Earnings Per Share of Rs. 10/- each (two annualised)		
	Basic	(1.53)	(4.87)
	Diluted	(1.53)	(4.87)

Note: 1. The above financial results have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 29th June, 2021. Previous period figures have been regrouped/rearranged wherever considered necessary. 2. As regard to Deferred Tax as per the Accounting Standard AS-22, the Company has provided for the same based on the current year's financials. 3. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 4. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 5. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 6. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 7. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 8. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 9. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 10. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 11. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 12. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 13. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 14. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 15. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 16. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 17. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 18. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 19. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 20. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 21. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 22. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 23. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 24. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 25. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 26. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 27. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 28. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 29. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 30. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 31. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 32. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 33. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 34. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 35. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 36. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 37. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 38. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 39. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 40. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 41. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 42. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 43. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 44. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 45. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 46. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 47. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 48. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 49. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 50. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 51. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 52. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 53. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 54. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 55. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 56. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 57. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 58. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 59. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 60. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 61. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 62. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 63. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 64. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 65. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 66. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 67. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 68. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 69. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 70. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 71. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 72. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 73. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 74. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 75. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 76. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 77. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 78. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 79. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 80. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 81. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 82. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 83. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 84. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 85. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 86. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 87. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 88. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 89. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 90. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 91. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 92. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 93. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 94. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 95. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 96. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 97. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 98. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 99. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 100. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 101. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 102. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 103. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 104. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 105. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 106. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 107. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 108. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 109. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 110. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 111. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 112. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 113. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 114. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 115. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 116. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 117. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 118. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 119. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 120. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 121. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 122. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 123. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 124. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 125. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 126. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 127. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 128. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 129. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 130. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 131. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 132. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 133. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 134. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 135. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 136. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 137. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 138. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 139. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 140. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 141. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 142. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 143. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 144. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 145. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 146. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 147. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 148. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 149. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 150. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 151. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 152. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 153. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 154. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 155. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 156. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 157. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 158. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 159. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 160. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 161. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 162. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 163. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 164. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 165. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 166. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 167. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 168. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 169. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 170. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 171. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 172. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 173. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 174. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 175. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 176. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 177. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 178. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 179. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 180. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 181. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 182. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 183. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 184. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 185. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 186. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 187. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 188. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 189. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 190. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 191. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 192. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 193. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 194. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 195. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 196. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 197. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 198. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 199. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 200. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 201. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 202. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 203. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 204. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 205. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 206. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 207. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 208. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 209. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 210. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 211. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 212. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 213. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 214. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 215. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 216. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 217. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 218. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 219. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 220. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 221. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 222. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 223. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 224. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 225. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 226. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 227. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 228. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 229. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 230. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 231. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 232. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 233. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 234. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 235. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 236. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 237. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 238. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 239. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 240. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 241. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 242. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 243. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 244. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 245. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 246. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 247. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 248. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 249. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 250. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 251. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 252. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 253. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 254. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 255. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 256. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 257. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 258. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 259. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 260. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 261. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 262. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 263. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 264. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 265. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 266. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 267. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 268. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 269. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 270. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 271. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 272. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 273. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 274. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 275. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 276. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 277. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 278. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 279. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 280. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 281. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 282. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 283. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 284. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 285. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 286. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 287. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 288. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 289. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 290. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 291. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 292. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 293. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 294. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 295. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 296. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 297. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 298. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 299. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 300. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 301. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 302. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 303. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 304. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 305. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 306. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 307. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 308. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 309. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 310. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 311. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 312. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 313. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 314. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 315. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 316. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 317. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 318. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 319. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 320. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 321. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 322. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 323. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 324. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 325. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 326. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 327. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 328. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 329. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 330. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 331. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 332. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 333. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 334. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 335. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 336. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 337. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 338. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 339. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 340. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 341. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 342. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 343. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 344. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 345. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 346. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 347. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 348. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 349. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 350. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 351. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 352. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 353. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 354. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 355. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 356. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 357. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 358. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 359. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 360. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 361. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 362. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 363. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 364. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 365. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 366. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 367. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 368. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 369. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 370. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 371. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 372. The Company has provided for the same based on the current year's financials. 3

